

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015—अग्रहायण 30, शक 1937

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2015

क्रमांक 822-म-2015-इकतीस.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (5) में विनिर्दिष्ट कृषक संगठन की संख्या के संबंध में, तथा उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सिंचाई प्रणाली के लिए, कालम (3) तथा (4) में विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

सारणी

| अनुक्रमांक | सिंचाई प्रणाली का नाम | कार्यक्षेत्र | | जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या | प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या |
|------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | ग्राम | विस्तार (हे.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

जिला छतरपुर

| | | | | | |
|----|---|-----|----------|----|-----|
| 1. | बरियारपुर बांयी नहर परियोजना | 173 | 34054.98 | 23 | 276 |
| 2. | खैरा तालाब, मामोन तालाब | 6 | 870.536 | 1 | 6 |
| 3. | रजिया तालाब, गार्ची तालाब, मगरार तालाब. | 6 | 719.333 | 1 | 6 |
| 4. | खिरिया बुजुर्ग तालाब | 3 | 339.312 | 1 | 6 |
| 5. | पानी तालाब, बक्सवाहा तालाब, कुममाड तालाब एवं किशनपुरा तालाब | 11 | 1186.136 | 1 | 6 |
| 6. | भेल्दा तालाब, अगरौठा तालाब | 3 | 286.439 | 1 | 6 |

| | | | | | |
|-----------|--|---|---------|---|---|
| 7 | दिदौनिया तालाब, | 1 | 227.453 | 1 | 6 |
| जिला सागर | | | | | |
| 8 | क्वायला जलाशय जगथर जलाशय | 5 | 428.36 | 1 | 6 |
| 9 | मंजला एवं धबोली जलाशय | 5 | 633 | 1 | 6 |
| 10 | बम्होरी जगदीश सगारी एवं सोना नाला जलाशय | 6 | 842.52 | 1 | 6 |
| 11 | बेलई, कांसिया, परसोन, डबडेश एवं चनारी जलाशय | 6 | 638.54 | 1 | 6 |
| 12 | बाविरमटिया जलाशय आर.बी.सी. | 5 | 750.25 | 1 | 6 |
| 13 | बाविरमटिया जलाशय एल.बी.सी. | 5 | 490.11 | 1 | 6 |
| 14 | जलंधर जलाशय | 1 | 568 | 1 | 6 |
| 15 | मोकलपुर एवं सूखा नाला जलाशय | 5 | 578 | 1 | 6 |
| 16 | तोडा, कंजेला एवं खजूरिया जलाशय | 9 | 1160 | 1 | 6 |
| 17 | बदौना, अमावनी, कनेरादेव एवं पगारा जलाशय | 4 | 536 | 1 | 6 |
| 18 | चनौआ बुजुर्ग , निपानिया एवं, मुर्गा दरारिया जलाशय | 8 | 658 | 1 | 6 |

| | | | | | |
|-----------|--|----|--------|---|---|
| 19 | तिन्सीमार पानी जलाशय | 8 | 1057 | 1 | 6 |
| 20 | मेनाई एवं शेखपुर जलाशय | 8 | 614 | 1 | 6 |
| 21 | जूनिया, जोलनपुर एवं छोटी रानगिर जलाशय | 9 | 679 | 1 | 6 |
| 22 | समनापुर जलाशय | 15 | 1596 | 1 | 6 |
| 23 | समनापुर जलाशय | 10 | 1504 | 1 | 6 |
| 24 | बिलहरी, बम्हनी, चकरा एवं केवलारी जलाशय | 10 | 1199 | 1 | 6 |
| जिला दमोह | | | | | |
| 25 | कलूमर जलाशय | 2 | 127 | 1 | 6 |
| 26 | छोटी कंटगी एवं भैंसखार जलाशय | 2 | 217.65 | 1 | 6 |
| 27 | भिनैनी एवं बदरकोला जलाशय | 3 | 411.96 | 1 | 6 |
| 28 | करारिया जलाशय | 4 | 360.67 | 1 | 6 |
| 29 | बडेरा जलाशय | 3 | 484.8 | 1 | 6 |
| 30 | गहरा नाला जलाशय | 4 | 301.26 | 1 | 6 |
| 31 | धनेटा जलाशय | 2 | 115.72 | 1 | 6 |
| 32 | जांगूपुरा एवं बरी कनौरा जलाशय | 5 | 689.09 | 1 | 6 |

| | | | | | |
|------------|---|----|---------|---|---|
| 33 | फतेहपुर जलाशय | 2 | 754.09 | 1 | 6 |
| 34 | चौपरा बांसाकला जलाशय | 6 | 580.18 | 1 | 6 |
| 35 | रियाना जलाशय | 1 | 142.93 | 1 | 6 |
| 36 | पिपरिया बिनती जलाशय | 4 | 565 | 1 | 6 |
| 37 | पवैया जलाशय, | 3 | 279.42 | 1 | 6 |
| 38 | सांरगपुरा जलाशय | 2 | 165.69 | 1 | 6 |
| 39 | गूगराकला जलाशय | 1 | 241.221 | 1 | 6 |
| 40 | भिलौनी जलाशय | 5 | 554.51 | 1 | 6 |
| जिला पन्ना | | | | | |
| 41 | मलघन, चकरा एवं अतरहाई तालाब | 6 | 663 | 1 | 6 |
| 42 | चकरभटा, लमतारा, टोला एवं, हरदुआ तालाब | 6 | 757 | 1 | 6 |
| 43 | बोरी, पोसी एवं रैगुवा तालाब | 5 | 831 | 1 | 6 |
| 44 | उमेही तालाब | 7 | 1322 | 1 | 6 |
| 45 | लिपरी तालाब | 11 | 1251 | 1 | 6 |
| 46 | शाहपुर खुर्द, इमलिया एवं देवरा -2 तालाब | 6 | 806 | 1 | 6 |

| | | | | | |
|-------------|---|----|---------|---|----|
| 47 | कोडाडोला, खोरा एवं चुनगुना तालाब | 4 | 436 | 1 | 6 |
| 48 | मंगलताल एवं गिटपिटा तालाब | 2 | 367 | 1 | 6 |
| जिला टीकमगढ | | | | | |
| 49 | बगाज माता एवं लहर तालाब | 8 | 1285 | 1 | 6 |
| 50 | टीलादौत तालाब | 6 | 400.325 | 1 | 6 |
| 51 | बहादुरगढ तालाब | 5 | 879 | 1 | 6 |
| 52 | कवाघाट, तिकोनाघाट तालाब | 8 | 819 | 1 | 6 |
| 53 | जरूआ तालाब | 3 | 603.4 | 1 | 6 |
| 54 | करियापाठा तालाब | 5 | 462.048 | 1 | 6 |
| 55 | बरुआनाला तालाब | 6 | 1960 | 1 | 6 |
| 56 | सतीघाट तालाब | 5 | 548 | 1 | 6 |
| जिला भोपाल | | | | | |
| 57 | बिरहई, सगोनी कलां, सुकलिया एवं बरखेडा बरामद जलाशय | 13 | 1481.6 | 1 | 6 |
| जिला रायसेन | | | | | |
| 58 | बारना परियोजना | 10 | 2381 | 1 | 12 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|------------|---------|---|----|
| 59 | सेमरी मध्यम परियोजना | | 32 | 5701 | 3 | 36 |
| 60 | सेमराखास तालाब | | 10 | 1268.69 | 1 | 6 |
| 61 | शाहबादतिलेंडी एवं बकानिया तालाब | | 6 | 613.00 | 1 | 6 |
| 62 | नगपुरा नगझिरी तालाब | | 13 | 1989.00 | 1 | 6 |
| 63 | आमोदा तालाब | | 2 | 128.00 | 1 | 6 |
| 64 | देहगवां तालाब | | 5 | 195.00 | 1 | 6 |
| 65 | बेरखेडी तालाब | | 3 | 316.71 | 1 | 6 |
| 66 | सालाबर्कू तालाब | | 11 | 1657.79 | 1 | 6 |
| 67 | टेहरी तालाब | | 3 | 703.29 | 1 | 6 |
| 68 | तुलसीपार तालाब | | 6 | 1029.19 | 1 | 6 |
| 69 | मसूर बाबड़ी तालाब | | 6 | 716.99 | 1 | 6 |
| 70 | साजखेडा तालाब | | 7 | 759.95 | 1 | 6 |
| | | | जिला सीहोर | | | |
| 71 | घोघरा मध्यम परियोजना | | 24 | 5613 | 3 | 36 |
| 72 | मनीरामपुरा परियोजना | | 6 | 710 | 1 | 6 |
| 73 | मरदानपुर उदवहन योजना | | 5 | 1190 | 1 | 12 |

जिला उज्जैन

| | | | | | |
|----|------------------|---|--------|---|---|
| 74 | खेरला तालाब | 3 | 159.56 | 1 | 6 |
| 75 | तुल्सापुरा तालाब | 2 | 97.98 | 1 | 6 |

जिला धार

| | | | | | |
|----|-------------|---|---------|---|---|
| 76 | थाना तालाब | 9 | 1950 | 1 | 6 |
| 77 | इंदला तालाब | 7 | 1147.48 | 1 | 6 |

जिला रतलाम

| | | | | | |
|----|--------------------|---|---------|---|---|
| 78 | डेशीत्रिवेणी तालाब | 6 | 1196.25 | 1 | 6 |
|----|--------------------|---|---------|---|---|

जिला आगर

| | | | | | |
|----|------------------------|----|--------|---|----|
| 79 | कीटखेडी मध्यम परियोजना | 11 | 731.28 | 1 | 12 |
|----|------------------------|----|--------|---|----|

जिला मंदसौर

| | | | | | |
|----|---------------------------------|----|---------|---|---|
| 80 | परासली तालाब | 8 | 842.18 | 1 | 6 |
| 81 | नावली तालाब | 1 | 229.021 | 1 | 6 |
| 82 | रलायता एवं चौसला तालाब | 6 | 165.25 | 1 | 6 |
| 83 | कोटेश्वर एवं फतहपुर चिकली तालाब | 10 | 253.85 | 1 | 6 |

| | | | | | |
|------------|--|----|----------|---|----|
| 84 | देवरिया विजय, देवरी एवं रहीमगढ़ तालाब | 8 | 206.4 | 1 | 6 |
| 85 | दोरवाडा, रतन पिपलिया, रणायरा गर्गावद एवं मिण्डलाखेडा तालाब | 13 | 189.8 | 1 | 6 |
| 86 | मुन्ज्याखेडी एवं सोमिया तालाब | 11 | 153.45 | 1 | 6 |
| जिला खरगोन | | | | | |
| 87 | लाखापुरा तालाब | 3 | 290 | 1 | 6 |
| 88 | बसन्तपुरा तालाब | 3 | 475 | 1 | 6 |
| 89 | होलीमाल तालाब | 3 | 260 | 1 | 6 |
| जिला खडवा | | | | | |
| 90 | छनेरा तालाब | 2 | 145.67 | 1 | 6 |
| 91 | खजूरी तालाब | 2 | 146.28 | 1 | 6 |
| 92 | इटावामामाडोह तालाब | 1 | 124.71 | 1 | 6 |
| 93 | मेढापानी तालाब | 2 | 252.31 | 1 | 6 |
| 94 | नावली तालाब | 3 | 498.52 | 1 | 6 |
| 95 | अर्दला तालाब | 4 | 547.96 | 1 | 6 |
| जिला बैतूल | | | | | |
| 96 | बादलडोह योजना | 5 | 1247.533 | 2 | 12 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----|---------|---|----|
| 97 | छिंदवाड़ योजना | 2 | 256.423 | 1 | 6 |
| जिला हरदा | | | | | |
| 98 | माचक उपनहर | 65 | 8906 | 5 | 60 |
| 99 | खिरकिया उपनहर | 6 | 1897 | 1 | 12 |
| 100 | आमाखाल योजना | 5 | 830 | 1 | 6 |
| जिला छिंदवाडा | | | | | |
| 101 | रीछन नाला जलाशय | 7 | 831.51 | 1 | 6 |
| 102 | मुर्गीटोला जलाशय | 3 | 411.45 | 1 | 6 |
| 103 | भेड़ा जलाशय | 4 | 481.34 | 1 | 6 |
| 104 | पापड़ा जलाशय | 3 | 303.25 | 1 | 6 |
| 105 | खामीबडेला जलाशय | 3 | 600.00 | 1 | 6 |
| 106 | बागला जलाशय | 4 | 172.62 | 1 | 6 |
| 107 | गुरैया जलाशय | 3 | 325.00 | 1 | 6 |
| 108 | पिपारियागुमानी जलाशय | 2 | 142.00 | 1 | 6 |
| 109 | डेहरी जलाशय | 2 | 210.00 | 1 | 6 |
| 110 | बिलावरकलां एवं कोल्हिया जलाशय | 3 | 192.25 | 1 | 6 |

| | | | | | |
|-------------|---|----|---------|---|---|
| 111 | दवक जलाशय | 1 | 110 | 1 | 6 |
| 112 | पिण्डरईसराफ जलाशय | 3 | 142.02 | 1 | 6 |
| 113 | टुण्डवाडा जलाशय | 3 | 378 | 1 | 6 |
| 114 | घोघरा जलाशय | 2 | 206.05 | 1 | 6 |
| 115 | रमपुरी दावाझिर जलाशय | 3 | 200.38 | 1 | 6 |
| 116 | बगदरी जलाशय | 1 | 153.03 | 1 | 6 |
| 117 | दिलावरमोहगांव जलाशय | 6 | 280 | 1 | 6 |
| 118 | पंढरीखापा जलाशय | 3 | 152.61 | 1 | 6 |
| 119 | सीताझिर जलाशय | 5 | 659.01 | 1 | 6 |
| 120 | डोकढोह जलाशय | 6 | 851.53 | 1 | 6 |
| 121 | अंबाखापा जलाशय | 6 | 1300.00 | 1 | 6 |
| 122 | गोडीवाडोना जलाशय | 4 | 500.00 | 1 | 6 |
| 123 | भाजीपानी जलाशय | 4 | 468.29 | 1 | 6 |
| 124 | मोहगांव जलाशय | 10 | 1990.00 | 1 | 6 |
| जिला जबलपुर | | | | | |
| 125 | डुगरगंवा, खिन्हा, इमलई एवं देहरीकला जलाशय | 7 | 466 | 1 | 6 |

जिला नरसिंहपुर

| | | | | | |
|-----|---|----|--------|---|---|
| 126 | कुण्डा एवं डोभ जलाशय | 5 | 382 | 1 | 6 |
| 127 | डुगरिया गोटेगांव, बम्हनी, गुरा एवं स्वामीसागर जलाशय | 11 | 819 | 1 | 6 |
| 128 | मेहगांव, डुगरिया उसरी एवं गोरखपुर जलाशय | 4 | 485 | 1 | 6 |
| 129 | गड़रिया, जगन्नाथपुर एवं गाडरवाराखेड़ा जलाशय | 6 | 430.00 | 1 | 6 |

जिला बालाघाट

| | | | | | |
|-----|---------------------|----|---------|---|----|
| 130 | राजीव सागर परियोजना | 78 | 7231.76 | 4 | 48 |
|-----|---------------------|----|---------|---|----|

जिला सिंगरोली

| | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|---|---|
| 131 | पडरी बांध | 6 | 552 | 1 | 6 |
| 132 | सरोंधा बांध | 1 | 271 | 1 | 6 |
| 133 | साजापानी बांध | 2 | 243 | 1 | 6 |

जिला अनूपपुर

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|-----|---|---|
| 134 | करपा एवं इंटोर जलाशय | 4 | 629 | 1 | 6 |
| 135 | नानघाटी एवं दमेहड़ी जलाशय | 4 | 620 | 1 | 6 |
| 136 | छुलकारी, पाली, बांकी एवं फुनगा जलाशय | 6 | 871 | 1 | 6 |

| | | | | | |
|--------------|---|----|----------|---|----|
| 137 | लखनपुर, अमिलिया, ताराडाड एवं छिरहाटोला जलाशय | 9 | 511 | 1 | 6 |
| जिला सतना | | | | | |
| 138 | बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर | 44 | 10868.45 | 4 | 48 |
| जिला रीवा | | | | | |
| 139 | बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर | 23 | 6882.95 | 3 | 36 |
| जिला शिवपुरी | | | | | |
| 140 | छर्च योजना | 3 | 324 | 1 | 6 |
| 141 | सुनाज, पारागढ योजना | 4 | 962 | 1 | 6 |
| 142 | गुरिल्ला, पिसनहारी की टोरिया एवं कूड़ापाडौन योजना | 5 | 642 | 1 | 6 |
| 143 | पचीपुरा तालाब | 7 | 1495 | 1 | 6 |
| जिला बडवानी | | | | | |
| 144 | कमोदवाडा तालाब | 5 | 634.102 | 1 | 6 |

No. 822-M-2015-XXXI.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, notifies the area of operation specified in columns (3) and (4) of the Table below, in relation to the number of Farmers Organization specified in column (5) and for irrigation system specified in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

| S. No. | Name of Irrigation system | Area of Operation | | Number of Water Users' Association | Number of Territorial Constituency |
|----------------------------|---|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Village | Extent (Ha.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| District Chhatarpur | | | | | |
| 1. | Bariyarpur Left Canal Project | 173 | 34054.98 | 23 | 276 |
| 2. | Khaira Tank, Mamon Tank | 6 | 870.536 | 1 | 6 |
| 3. | Rajiya Tank, Garchi Tank, Magrar Tank | 6 | 719.333 | 1 | 6 |
| 4. | Khirriya Bujurg Tank | 3 | 339.312 | 1 | 6 |
| 5. | Pali Tank, Baksvaha Tank, Kummad Tank and Kishanpura Tank | 11 | 1186.136 | 1 | 6 |
| 6. | Bhelda Tank, Agroutha Tank | 3 | 286.439 | 1 | 6 |
| 7. | Didouniya Tank | 1 | 227.453 | 1 | 6 |

| S. No. | Name of Irrigation system | Area of Operation | | Number of Water Users' Association | Number of Territorial Constituency |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Village | Extent (Ha.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| District Sagar | | | | | |
| 8. | Kvayala Reservoir, Jagthar Reservoir | 5 | 428.36 | 1 | 6 |
| 9. | Manjla and Dhaboli Reservoir | 5 | 633 | 1 | 6 |
| 10. | Bamhori Jagdish, Sagari and Sona nala Reservoir | 6 | 842.52 | 1 | 6 |
| 11. | Belai, Kansia, Persone , Dabdera and Chanari Reservoir | 6 | 638.54 | 1 | 6 |
| 12. | Bavirmatia Reservoir R.B.C. | 5 | 750.25 | 1 | 6 |
| 13. | Bavirmatia Reservoir L.B.C. | 5 | 490.11 | 1 | 6 |
| 14. | Jalandhar Reservoir | 1 | 568 | 1 | 6 |
| 15. | Mokalpur and Sukha nala Reservoir | 5 | 578 | 1 | 6 |
| 16. | Toda, Kanjela and Khajuriya Reservoir | 9 | 1160 | 1 | 6 |
| 17. | Badouna, Amavni, Kaneradev and Pagara Reservoir | 4 | 536 | 1 | 6 |
| 18. | Chanoua Bujurg, Nipaniya and murga darariya Reservoir | 8 | 658 | 1 | 6 |
| 19. | Tinsimarpani Reservoir | 8 | 1057 | 1 | 6 |
| 20. | Menai and Shekhpur Reservoir | 8 | 614 | 1 | 6 |

| S. No. | Name of Irrigation system | Area of Operation | | Number of Water Users' Association | Number of Territorial Constituency |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Village | Extent (Ha.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 21. | Junia, Jolanpur and Chhoti Rangir Reservoir | 9 | 679 | 1 | 6 |
| 22. | Samnapur Reservoir | 15 | 1596 | 1 | 6 |
| 23. | Samnapur Reservoir | 10 | 1504 | 1 | 6 |
| 24. | Bilhari, Bamhni, Chakra and Kewlari Reservoir | 10 | 1199 | 1 | 6 |
| District Damoh | | | | | |
| 25. | Kaloomar Reservoir | 2 | 127 | 1 | 6 |
| 26. | Chhoti Katangi and Bhainskhar reservoir Reservoir | 2 | 217.65 | 1 | 6 |
| 27. | Bhinaini and Badarkola Reservoir | 3 | 411.96 | 1 | 6 |
| 28. | Karariya Reservoir | 4 | 360.67 | 1 | 6 |
| 29. | Badera Reservoir | 3 | 484.8 | 1 | 6 |
| 30. | Gahara Nala Reservoir | 4 | 301.26 | 1 | 6 |
| 31. | Dhaneta Reservoir | 2 | 115.72 | 1 | 6 |
| 32. | Jangupura and Bari Kanora Reservoir | 5 | 689.09 | 1 | 6 |
| 33. | Fatehpur Reservoir | 2 | 754.09 | 1 | 6 |
| 34. | Chopra bansakala Reservoir | 6 | 580.18 | 1 | 6 |
| 35. | Riyana Reservoir | 1 | 142.93 | 1 | 6 |
| 36. | Pipariya Binti Reservoir | 4 | 565 | 1 | 6 |
| 37. | Pawaiya Reservoir | 3 | 279.42 | 1 | 6 |

| S. No. | Name of Irrigation system | Area of Operation | | Number of Water Users' Association | Number of Territorial Constituency |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Village | Extent (Ha.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 38. | Sarangpura Reservoir | 2 | 165.69 | 1 | 6 |
| 39. | Gugra kala Reservoir | 1 | 241.221 | 1 | 6 |
| 40. | Bhilouni Reservoir | 5 | 554.51 | 1 | 6 |
| District Panna | | | | | |
| 41. | Malghan, Chakra and Atarhai Tank | 6 | 663 | 1 | 6 |
| 42. | Chakarbhata, Lamtara, Tola and Hardua Tank | 6 | 757 | 1 | 6 |
| 43. | Bori, Posi and Raigua Tank | 5 | 831 | 1 | 6 |
| 44. | Umehi tank | 7 | 1322 | 1 | 6 |
| 45. | Lipari tank | 11 | 1251 | 1 | 6 |
| 46. | Shahpur Khurd, Imaliya and Dewra -2 tank | 6 | 806 | 1 | 6 |
| 47. | Kodadola, Khora and Chunguna Tank | 4 | 436 | 1 | 6 |
| 48. | Mangaltal and Gitpita Tank | 2 | 367 | 1 | 6 |
| District Tikamgarh | | | | | |
| 49. | Bagaj Mata and Lahar Tank | 8 | 1285 | 1 | 6 |
| 50. | Teeladant Tank | 6 | 400.325 | 1 | 6 |
| 51. | Bahadurgarh Tank | 5 | 879 | 1 | 6 |
| 52. | Kawaghat and Tikonaghat Tank | 8 | 819 | 1 | 6 |
| 53. | Jarua Tank | 3 | 603.4 | 1 | 6 |

| S. No. | Name of Irrigation system | Area of Operation | | Number of Water Users' Association | Number of Territorial Constituency |
|------------------------|---|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Village | Extent (Ha.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 54. | Kariyapatha tank | 5 | 462.048 | 1 | 6 |
| 55. | Baruanala Tank | 6 | 1960 | 1 | 6 |
| 56. | Satighat tank | 5 | 548 | 1 | 6 |
| District Bhopal | | | | | |
| 57. | Birhai, Sagonikala, Sukaliya and Barkheda Baramad Reservoir | 13 | 1481.6 | 1 | 6 |
| District Raisen | | | | | |
| 58. | Barna Reservoir | 10 | 2381 | 1 | 12 |
| 59. | Semri Medium Project | 32 | 5701 | 3 | 36 |
| 60. | Semrakhas Tank | 10 | 1268.69 | 1 | 6 |
| 61. | Shahbadtilendi and Bakaniya Tank | 6 | 613.00 | 1 | 6 |
| 62. | Nagpura Nagjhiri Tank | 13 | 1989.00 | 1 | 6 |
| 63. | Amoda Tank | 2 | 128.00 | 1 | 6 |
| 64. | Dehgawan Tank | 5 | 195.00 | 1 | 6 |
| 65. | Berkhedi tank | 3 | 316.71 | 1 | 6 |
| 66. | Sala BarruTank | 11 | 1657.79 | 1 | 6 |
| 67. | Tehri Tank | 3 | 703.29 | 1 | 6 |
| 68. | Tulsipar tank | 6 | 1029.19 | 1 | 6 |
| 69. | Masoor Babdi tank | 6 | 716.99 | 1 | 6 |
| 70. | Sajkheda tank | 7 | 759.95 | 1 | 6 |

| S. No. | Name of Irrigation system | Area of Operation | | Number of Water Users' Association | Number of Territorial Constituency |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Village | Extent (Ha.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| District Sehore | | | | | |
| 71. | Ghoghra Medium Project | 24 | 5613 | 3 | 36 |
| 72. | Manirampura Project | 6 | 710 | 1 | 6 |
| 73. | Mardanpur LIS | 5 | 1190 | 1 | 12 |
| District Ujjain | | | | | |
| 74. | Kherla Tank | 3 | 159.56 | 1 | 6 |
| 75. | Tulsapura Tank | 2 | 97.98 | 1 | 6 |
| District Dhar | | | | | |
| 76. | Thana Tank | 9 | 1950 | 1 | 6 |
| 77. | Indla Tank | 7 | 1147.48 | 1 | 6 |
| District Ratlam | | | | | |
| 78. | Deritriveni Tank | 6 | 1196.25 | 1 | 6 |
| District Agar | | | | | |
| 79. | Keetkhedi Medium Project | 11 | 731.28 | 1 | 12 |
| District Mandsaur | | | | | |
| 80. | Parasali Tank | 8 | 842.18 | 1 | 6 |
| 81. | Navli Tank | 1 | 229.021 | 1 | 6 |
| 82. | Ralayta and Chousla Tank | 6 | 165.25 | 1 | 6 |

| S. No. | Name of Irrigation system | Area of Operation | | Number of Water Users' Association | Number of Territorial Constituency |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Village | Extent (Ha.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 83. | Koteshwar and Fatehpur Chikli Tank | 10 | 253.85 | 1 | 6 |
| 84. | Dewariya Vijay, Dewri and Rahingarh Tank | 8 | 206.4 | 1 | 6 |
| 85. | Dorwada, Ratan Pipaliya, Ranayra Garrawad and Mindlakheda Tank | 13 | 189.8 | 1 | 6 |
| 86. | Munjyakhedi and Somiya Tank | 11 | 153.45 | 1 | 6 |
| District Khargone | | | | | |
| 87. | Lakhapura Tank | 3 | 290 | 1 | 6 |
| 88. | Basantpura Tank | 3 | 475 | 1 | 6 |
| 89. | Holimal Tank | 3 | 260 | 1 | 6 |
| District Khandwa | | | | | |
| 90. | Chhanera tank | 2 | 145.67 | 1 | 6 |
| 91. | Khajoori Tank | 2 | 146.28 | 1 | 6 |
| 92. | Itawamamadoh Tank | 1 | 124.71 | 1 | 6 |
| 93. | Medhapani Tank | 2 | 252.31 | 1 | 6 |
| 94. | Nawli Tank | 3 | 498.52 | 1 | 6 |
| 95. | Ardala Tank | 4 | 547.96 | 1 | 6 |
| District Betul | | | | | |
| 96. | Badaldoh Scheme | 5 | 1247.533 | 2 | 12 |
| 97. | Chhindwad Scheme | 2 | 256.423 | 1 | 6 |

| S. No. | Name of Irrigation system | Area of Operation | | Number of Water Users' Association | Number of Territorial Constituency |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Village | Extent (Ha.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| District Harda | | | | | |
| 98. | Machak Sub Canal | 65 | 8906 | 5 | 60 |
| 99. | Khirkiya Sub Canal | 6 | 1897 | 1 | 12 |
| 100. | Amakhal Scheme | 5 | 830 | 1 | 6 |
| District Chhindwara | | | | | |
| 101. | Reechhan nala Reservoir | 7 | 831.51 | 1 | 6 |
| 102. | Murgitola Reservoir; | 3 | 411.45 | 1 | 6 |
| 103. | Bheda Reservoir | 4 | 481.34 | 1 | 6 |
| 104. | Papda Reservoir | 3 | 303.25 | 1 | 6 |
| 105. | Khamibadela Reservoir | 3 | 600.00 | 1 | 6 |
| 106. | Bagla Reservoir | 4 | 172.62 | 1 | 6 |
| 107. | Guraiya Reservoir | 3 | 325.00 | 1 | 6 |
| 108. | Pipariyagumani Reservoir | 2 | 142.00 | 1 | 6 |
| 109. | Dehri Reservoir | 2 | 210.00 | 1 | 6 |
| 110. | Bilawarkala and kolhiya Reservoir | 3 | 192.25 | 1 | 6 |
| 111. | Dawak Reservoir | 1 | 110 | 1 | 6 |
| 112. | Pindraisaraf Reservoir | 3 | 142.02 | 1 | 6 |
| 113. | Tundwada Reservoir | 3 | 378 | 1 | 6 |
| 114. | Ghogra Reservoir | 2 | 206.05 | 1 | 6 |
| 115. | Rampuri Dawajhir Reservoir | 3 | 200.38 | 1 | 6 |

| S. No. | Name of Irrigation system | Area of Operation | | Number of Water Users' Association | Number of Territorial Constituency |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Village | Extent (Ha.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 116. | Bagdari Reservoir | 1 | 153.03 | 1 | 6 |
| 117. | Dilawarmohgaon Reservoir | 6 | 280 | 1 | 6 |
| 118. | Pandrikhapa Reservoir | 3 | 152.61 | 1 | 6 |
| 119. | Sitajhir Reservoir | 5 | 659.01 | 1 | 6 |
| 120. | Dokdhoh Reservoir | 6 | 851.53 | 1 | 6 |
| 121. | Ambakhapa Reservoir | 6 | 1300.00 | 1 | 6 |
| 122. | Godivadona Reservoir | 4 | 500.00 | 1 | 6 |
| 123. | Bhajipani Reservoir | 4 | 468.29 | 1 | 6 |
| 124. | Mohgaon Reservoir | 10 | 1990.00 | 1 | 6 |
| District Jabalpur | | | | | |
| 125. | Dugargawan, Khinha, Imlai and Dehrikala Reservoir | 7 | 466 | 1 | 6 |
| District Narsinghpur | | | | | |
| 126. | Kunda and Dobh Reservoir | 5 | 382 | 1 | 6 |
| 127. | Dugariya Gotegaon, Bamhni, Gurra and Swamisagar reservoir | 11 | 819 | 1 | 6 |
| 128. | Mehgaon, Dugariya Usri and Gorakhpur Reservoir | 4 | 485 | 1 | 6 |
| 129. | Gadariya, Jagannathpur and Gadarwarakheda Reservoir | 6 | 430.00 | 1 | 6 |
| District Balaghat | | | | | |
| 130. | Rajiv sagar Project | 78 | 7231.76 | 4 | 48 |

| S. No. | Name of Irrigation system | Area of Operation | | Number of Water Users' Association | Number of Territorial Constituency |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Village | Extent (Ha.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| District Singrauli | | | | | |
| 131. | Padri Dam | 6 | 552 | 1 | 6 |
| 132. | Sarondha Dam | 1 | 271 | 1 | 6 |
| 133. | Sajapani Dam | 2 | 243 | 1 | 6 |
| District Anuppur | | | | | |
| 134. | Karpa and Intor Reservoir | 4 | 629 | 1 | 6 |
| 135. | Nanghati and Damehdi Reservoir | 4 | 620 | 1 | 6 |
| 136. | Chhulkari, Pali, Banki and Phunga Reservoir | 6 | 871 | 1 | 6 |
| 137. | Lakhanpur, Amiliya, Taradad and Chhirhatola Reservoir | 9 | 511 | 1 | 6 |
| District Satna | | | | | |
| 138. | Purwa canal of Bansagar Project | 44 | 10868.45 | 4 | 48 |
| District Rewa | | | | | |
| 139. | Purwa canal of Bansagar Project | 23 | 6882.95 | 3 | 36 |
| District Shivpuri | | | | | |
| 140. | Chharch Scheme | 3 | 324 | 1 | 6 |
| 141. | Sunaj, Paragarh Scheme | 4 | 962 | 1 | 6 |

| S. No. | Name of Irrigation system | Area of Operation | | Number of Water Users' Association | Number of Territorial Constituency |
|-------------------------|---|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Village | Extent (Ha.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 142. | Gurilla, Pisanhari ki Toriya, Kudapadone Scheme | 5 | 642 | 1 | 6 |
| 143. | Pachipura Tank | 7 | 1495 | 1 | 6 |
| District Badwani | | | | | |
| 144. | Kamodwada Tank | 5 | 634.102 | 1 | 6 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तिलकराज कपूर, सचिव.